

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2019/वैशाख 13, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 86]	DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2019/VAISAKHA 13, 1941	[N.C.T.D. No. 35

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2019

स.फा.8(24)/2016—एसबी/आरआर/467.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं.फा. 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) इन नियमों को निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन समूह पैक्षिक ग्रेड एवं संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :— ऐसा कोई भी व्यक्ति  
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या  
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	निदेशक शारीरिक शिक्षा
2.	पदों की संख्या	:	03* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'क' वर्ग, सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	पे बैंड -3 15,600-39,100/-रुपये जमा अकेडमिक ग्रेड पे 6000/-रुपये
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	<b>अनिवार्य :-</b> (i) शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री या खेल विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है प्वाइंट सकेल में समरूप ग्रेड)। (ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं या राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशीप में विश्वविद्यालय/कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड। (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। (iv) जिन प्रत्याशियों को "यूजीसी (पीएचडी डिग्री अवार्ड हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी डिग्री दी गई है उन्हें निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए एनईटी की न्यूनतम अपेक्षित पात्रता शर्तों से छूट होगी। (v) यूजीसी विनियमों के अनुसार आयोजित शारीरिक फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। क) सभी प्रत्याशी जिन्हें शारीरिक फिटनेस परीक्षा देना अपेक्षित है उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि वह इस परीक्षा को देने से पूर्व स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट है। (ख) उक्त (क) यथोल्लिखित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्याशी को निम्नलिखित नियमों के अनुसार शारीरिक फिटनेस परीक्षा देनी होगी, अर्थात् :- <b>पुरुष के लिये:</b> 12 मिनट में दौड़/चलने की परीक्षा

		<table><tr><td>30 वर्ष तक</td><td>1800 मीटर</td></tr><tr><td>40 वर्ष तक</td><td>1500 मीटर</td></tr><tr><td>45 वर्ष तक</td><td>1200 मीटर</td></tr><tr><td>50 वर्ष तक</td><td>800 मीटर</td></tr></table> <p>महिला के लिए: 8 मिनट में दौड़/चलने की परीक्षा</p> <table><tr><td>30 वर्ष तक</td><td>1000 मीटर</td></tr><tr><td>40 वर्ष तक</td><td>800 मीटर</td></tr><tr><td>45 वर्ष तक</td><td>600 मीटर</td></tr><tr><td>50 वर्ष तक</td><td>400 मीटर</td></tr></table> <p>टीप 1 : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी।</p> <p>टीप 2 : यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा :-</p> <table><tr><td>ग्रेड प्वाइंट</td><td>अंकों का प्रतिशत</td></tr><tr><td>6.25</td><td>55 प्रतिशत</td></tr><tr><td>6.75</td><td>60 प्रतिशत</td></tr><tr><td>7.25</td><td>65 प्रतिशत</td></tr><tr><td>7.75</td><td>70 प्रतिशत</td></tr><tr><td>8.25</td><td>75 प्रतिशत</td></tr></table> <p>टीप 3 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप 4 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>	30 वर्ष तक	1800 मीटर	40 वर्ष तक	1500 मीटर	45 वर्ष तक	1200 मीटर	50 वर्ष तक	800 मीटर	30 वर्ष तक	1000 मीटर	40 वर्ष तक	800 मीटर	45 वर्ष तक	600 मीटर	50 वर्ष तक	400 मीटर	ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत	6.25	55 प्रतिशत	6.75	60 प्रतिशत	7.25	65 प्रतिशत	7.75	70 प्रतिशत	8.25	75 प्रतिशत
30 वर्ष तक	1800 मीटर																													
40 वर्ष तक	1500 मीटर																													
45 वर्ष तक	1200 मीटर																													
50 वर्ष तक	800 मीटर																													
30 वर्ष तक	1000 मीटर																													
40 वर्ष तक	800 मीटर																													
45 वर्ष तक	600 मीटर																													
50 वर्ष तक	400 मीटर																													
ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत																													
6.25	55 प्रतिशत																													
6.75	60 प्रतिशत																													
7.25	65 प्रतिशत																													
7.75	70 प्रतिशत																													
8.25	75 प्रतिशत																													
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं																												
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: एक वर्ष																												
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा																												
		<p>नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से भरा जा सकता है :-</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।</p> <p>टीप : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं</p>																												

		होगी।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	: 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) समिति 1. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – सदस्य 3. विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

रजनीश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव

## DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

### NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2019

**No. F.8(24)/2016-SB/RR/467.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F24/78/68-DH (S) dated 24<sup>th</sup> September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public Service Commission is pleased to frame the following recruitment rules, regarding the method of recruitment to the post of Director Physical Education in Degree Level Colleges under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Director Physical Education, Recruitment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Scale of pay:-** The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications:** No person,-  
(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or  
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;  
shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

- Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director Physical Education.	03 * (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	PB-3, Rs. 15600-39100 Plus Academic Grade Pay Rs. 6,000/-.	Not applicable.	Not exceeding 35 years.  (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	(I) A Master's Degree in Physical Education or A Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (Or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).  (II) Record of having represented the University / College at the Inter-University Competitions or National / International Championships.  (III) Must have qualified the National eligibility tests conducted by the University Grants Commission.  (IV) Candidate who are or have been awarded Ph.D degree in accordance with the "UGC (Minimum standards and procedure for award of Ph.D Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET for recruitment and appointment of Director Physical Education.  (V) Passed the following Physical Fitness Test conducted in Accordance with UGC Regulations:-  (a) All candidates who are required to undertake the Physical Fitness Test shall be required to produce a Medical Certificate Certifying that He / She is medically fit before undertaking such

						<p>test;</p> <p>(b) On production of such medical certificate as mentioned in (a) above. The candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norms, namely:-</p> <p><u>For Men:</u> 12 Minutes Run/Walk Test:</p> <table><tr><td>Upto 30 years</td><td>1800 Meters</td></tr><tr><td>Upto 40 years</td><td>1500 Meters</td></tr><tr><td>Upto 45 years</td><td>1200 Meters</td></tr><tr><td>Upto 50 years</td><td>800 Meters</td></tr></table> <p><u>For Women:</u> 8 Minutes Run/Walk Test:</p> <table><tr><td>Upto 30 years</td><td>1000 Meters</td></tr><tr><td>Upto 40 years</td><td>800 Meters</td></tr><tr><td>Upto 45 years</td><td>600 Meters</td></tr><tr><td>Upto 50 years</td><td>400 Meters</td></tr></table> <p>Note 1: Ph.D shall be from a recognized University.</p> <p>Note 2: If a Grade Point System is adopted, the CGPA will be converted into equivalent marks as below:-</p> <table><tr><th>Grade Point</th><th>Equivalent Percentage</th></tr><tr><td>6.25</td><td>55%</td></tr><tr><td>6.75</td><td>60%</td></tr><tr><td>7.25</td><td>65%</td></tr><tr><td>7.75</td><td>70%</td></tr><tr><td>8.25</td><td>75%</td></tr></table> <p>Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 4: The qualification(s) regarding experience is/are</p>	Upto 30 years	1800 Meters	Upto 40 years	1500 Meters	Upto 45 years	1200 Meters	Upto 50 years	800 Meters	Upto 30 years	1000 Meters	Upto 40 years	800 Meters	Upto 45 years	600 Meters	Upto 50 years	400 Meters	Grade Point	Equivalent Percentage	6.25	55%	6.75	60%	7.25	65%	7.75	70%	8.25	75%
Upto 30 years	1800 Meters																																	
Upto 40 years	1500 Meters																																	
Upto 45 years	1200 Meters																																	
Upto 50 years	800 Meters																																	
Upto 30 years	1000 Meters																																	
Upto 40 years	800 Meters																																	
Upto 45 years	600 Meters																																	
Upto 50 years	400 Meters																																	
Grade Point	Equivalent Percentage																																	
6.25	55%																																	
6.75	60%																																	
7.25	65%																																	
7.75	70%																																	
8.25	75%																																	

						<p>relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/Union Territories:-</p> <p>A. (1) Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre/Department; and</p> <p>B. Possessing educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central</p>	Not applicable.	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Chairman</li> <li>2. Principal Secretary/Secretary Concerned in the Department of Training and Technical Education—Member</li> <li>3. Head of Department, Department of Training and Technical Education—Member.</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

		Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).			
--	--	--	--	--	--

By order and in the name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

RAJANISH SINGH, Jt. Director/Jt. Secy.